



NABL

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(An Autonomous Body under Department of Science & Technology, Govt. of India)

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

ADEPT FLUIDYNE (P). LTD. (CALIBRATION LABORATORY)

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Plot No. 4, S. No. 17/1B, Kothrud Industrial Estate, Kothrud, Pune, Maharashtra

in the discipline of

FLUID FLOW CALIBRATION

(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Certificate Number C-1199

Issue Date 31/03/2015



Valid Until 30/03/2017

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the additional requirements of NABL.

Signed for and on behalf of NABL

Avijit Das
Program Manager

Anil Relia
Director

Prof. Ashutosh Sharma
Chairman



रा.प्र.प्र.बो.

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

प्रत्यायन प्रमाण-पत्र

अडेप्ट फ्लुईडाइन प्रा.लिमिटेड (कैलिब्रेशन लैबोरेटरी)

का मूल्यांकन और प्रत्यायन निम्न मानक के अनुसार

आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005

“परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं की सक्षमता की सामान्य अपेक्षाएँ”

पुणे, महाराष्ट्र

में स्थित इसकी सुविधाओं के लिए

तरल प्रवाह अंशशोधन

के विषय क्षेत्र में किया गया।

(इस प्रयोगशाला के प्रत्यायन के विषय क्षेत्र की जानकारी एन ए बी एल वेबसाइट www.nabl-india.org से भी प्राप्त कर सकते हैं)

प्रमाण-पत्र संख्या अ-1199

जारी करने की तिथि 31/03/2015



वैधता की तिथि 30/03/2017

यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त मानक तथा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की अतिरिक्त अपेक्षाओं का निरंतर संतोषप्रद अनुपालन किए जाने पर अनुबंध में निर्दिष्टानुसार प्रत्यायन के क्षेत्र के लिए वैध रहेगा।

रा.प्र.प्र.बो. की ओर से हस्ताक्षरित

अ. दास

अविजित दास
कार्यक्रम प्रबन्धक

अनिल रेलिया

अनिल रेलिया
निदेशक

आशुतोष शर्मा

प्रो. अशुतोष शर्मा
अध्यक्ष



NABL

SCOPE OF ACCREDITATION

Laboratory	Adept Fluidyne (P). Ltd. (Calibration Laboratory), Plot No. 4, S. No. 17/1B, Kothrud Industrial Estate, Kothrud, Pune, Maharashtra		
Accreditation Standard	ISO/IEC 17025:2005		
Discipline	Fluid Flow Calibration	Issue Date	31.03.2015
Certificate Number	C-1199	Valid Until	30.03.2017
Last Amended on	-	Page	1 of 1

Quantity Measured / Instrument	Range/ Frequency	* Calibration Measurement Capability (\pm)	Remarks
1. VOLUME FLOW RATE 'WATER' ^S	45 m ³ /h to 450 m ³ /h	0.28 %	Using 5 t weighing system by Gravimetric method
	10 m ³ /h to 100 m ³ /h	0.29 %	Using 1 t weighing system by Gravimetric method
	5 m ³ /h to 20 m ³ /h	0.34 %	Using DN 32 Reference flow meter By comparison method

* Measurement Capability is expressed as an uncertainty (\pm) at a confidence probability of 95%

^SOnly in Permanent Laboratory

Sangeeta Kunwar
Convenor

Avijit Das
Program Manager